



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़ 1946 (श०)  
(सं० पटना 550) पटना, बुधवार, 26 जून 2024

सं० 04 / मेट्रो-02-08 / 2024 / 4110—न०वि०एवंआ०वि०  
नगर विकास एवं आवास विभाग

#### संकल्प

21 जून 2024

**विषय:—** राज्य के चार महत्वपूर्ण शहरों यथा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

बिहार के चार महत्वपूर्ण घनी आबादी वाले शहर यथा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर व्यापारिक एवं ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन इत्यादि का महत्वपूर्ण केन्द्र होने के कारण यहाँ की यातायात व्यवस्था पर काफी दबाव रहता है। इन शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण शहरों में प्रायः यातायात की समस्या बनी रहती है फलस्वरूप आम नागरिकों को समय से गंतव्य स्थान तक पहुँचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यातायात व्यवस्था को सुगम करने, पर्यावरण को संरक्षित रखने एवं सस्ती यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन शहरों में मेट्रो रेल परिचालन आवश्यक है।

2. अतः उक्त आलोक में पटना मेट्रो रेल की भांति राज्य के इन चार शहरों यथा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में आम नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन शहरों में मेट्रो रेल परिचालन प्रस्तावित है। इन शहरों की बढ़ती हुई आबादी, वाहनों की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से प्रदूषण को कम करने तथा सुरक्षित, विश्वसनीय, प्रभावी एवं किफायती सार्वजनिक यातायात प्रणाली के दृष्टिकोण से इन शहरों में मेट्रो का परिचालन अब आवश्यक हो गया है।

3. मेट्रो रेल परिचालन से चारों शहरों (मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर) के नागरिकों को निम्नांकित लाभ प्राप्त होंगे :—

- इससे निजी वाहनों का प्रयोग काफी कम हो जाएगा, जिससे यातायात की समस्या से एक हद तक छुटकारा मिलेगा।
- इससे पर्यावरण पर पड़ रहे कुप्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी।
- आम नागरिकों को दैनिक यात्रा में कम समय लगेगा।
- ऊर्जा की बचत होगी एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
- मेट्रो जैसे आधुनिक यातायात की सुविधा होने से इन शहरों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा।

4. इन शहरों में मेट्रो निर्माण हेतु राशि की उपलब्धता पटना मेट्रो रेल परियोजना की भांति केंद्र का योगदान 20%, राज्य सरकार का 20%, एवं बाह्य वित्तीय संस्थानों से 60% ऋण प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जायेगी।

5. विभाग द्वारा प्रस्तावित चारों शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के संभाव्यता (Feasibility) का अध्ययन किया जायेगा एवं इसके पोषण की संभाव्यता होने के उपरांत ही

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

6. उक्त तथ्यों के आलोक में राज्य के चार महत्वपूर्ण शहरों यथा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन की सैद्धांतिक सहमति के प्रस्ताव पर दिनांक-20.06.2024 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की मद सं0-22 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष /सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

आदेश से,  
सुनील कुमार यादव,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 550-571+200-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>